



Nisha

28 Nov 1996

10:00 AM

Jhansi

Model: web-freelalkitab

Order No: 121118202

लाल किताब

बिमारी का बगैर दवाई भी इलाज है, मगर मौत का कोई इलाज नहीं।
ज्योतिष दुनियाबी हिसाब-किताब है, कोई दावाए खुदाई नहीं।

लिंग _____: स्त्रीलिंग
जन्म तिथि _____: 28/11/1996
दिन _____: गुरुवार
जन्म समय _____: 10:00:00 घंटे
इष्ट _____: 08:13:03 घटी
स्थान _____: Jhansi
राज्य _____: Uttar Pradesh
देश _____: India

दादा का नाम _____:
पिता का नाम _____:
माता का नाम _____:
जाति _____:
गोत्र _____:

अक्षांश _____: 25:27:00 उत्तर
रेखांश _____: 78:34:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:15:44 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 09:44:16 घंटे
वेलान्तर _____: 00:11:59 घंटे
साम्पातिक काल _____: 14:13:42 घंटे
सूर्योदय _____: 06:42:46 घंटे
सूर्यास्त _____: 17:24:47 घंटे
दिनमान _____: 10:42:01 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: दक्षिणायन
सूर्य स्थिति(गोल) _____: दक्षिण
ऋतु _____: हेमन्त
सूर्य के अंश _____: 12:24:30 वृश्चिक
लग्न के अंश _____: 26:55:44 धनु

चैत्रादि संवत / शक _____: 2053 / 1918
मास _____: मार्गशीर्ष
पक्ष _____: कृष्ण
सूर्योदय कालीन तिथि _____: 3
तिथि समाप्ति काल _____: 11:58:01
जन्म तिथि _____: 3
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____: आर्द्रा
नक्षत्र समाप्ति काल _____: 14:55:15 घंटे
जन्म नक्षत्र _____: आर्द्रा
सूर्योदय कालीन योग _____: शुभ
योग समाप्ति काल _____: 22:16:22 घंटे
जन्म योग _____: शुभ
सूर्योदय कालीन करण _____: विष्टि
करण समाप्ति काल _____: 11:58:01 घंटे
जन्म करण _____: विष्टि
भयात _____: 52:23:15
भभोग _____: 64:41:24
भोग्य दशा काल _____: राहु 3 वर्ष 4 मा 22 दि


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	राशि	अंश	स्थिति	अंधा	सोया	धर्मी	नेक/मन्दा
लग्न	धनु	26:55:44	---	--	--	--	नेक
सूर्य	वृश्चिक	12:24:30	मित्र राशि	--	--	--	नेक
चन्द्र	मिथुन	17:29:05	मित्र राशि	--	--	--	नेक
मंगल	सिंह	21:17:39	मित्र राशि	--	--	--	नेक
बुध	वृश्चिक	26:46:48	सम राशि	--	--	--	मन्दा
गुरु	धनु	23:56:44	स्वराशि	--	--	--	नेक
शुक्र	तुला	12:30:51	मूलत्रिकोण	--	--	--	नेक
शनि	व मीन	06:49:14	सम राशि	--	--	--	नेक
राहु	व कन्या	12:10:46	मूलत्रिकोण	--	--	--	नेक
केतु	व मीन	12:10:46	मूलत्रिकोण	--	--	हाँ	मन्दा


भाव स्थिति

खाना नं.	मालिक	पक्का घर	किस्मत जगानेवाला	सोया	उच्च	नीच
1	मंगल	सूर्य	मंगल	--	सूर्य	शनि
2	शुक्र	गुरु	चंद्र	हाँ	चंद्र	--
3	बुध	मंगल	बुध	हाँ	राहु	केतु
4	चंद्र	चंद्र	चंद्र	--	गुरु	मंगल
5	सूर्य	गुरु	सूर्य	हाँ	--	--
6	बुध	बुध,केतु	केतु	हाँ	बुध,राहु	शुक्र,केतु
7	शुक्र	शुक्र,बुध	शुक्र	--	शनि	सूर्य
8	मंगल	मंगल,शनि	चंद्र	हाँ	--	चंद्र
9	गुरु	गुरु	शनि	--	केतु	राहु
10	शनि	शनि	शनि	--	मंगल	गुरु
11	शनि	शनि	गुरु	--	--	--
12	गुरु	गुरु,राहु	राहु	--	शुक्र,केतु	बुध,राहु

लग्न कुंडली



लालकिताब कुंडली



लाल किताब ग्रह फल

सूर्य

आपकी जन्मकुंडली में सूर्य बारहवें खाने में पड़ा है। इसकी वजह से आप घर के बाहर जाकर साधवी बनना चाहो तो साधवी न बन कर जागीरदार बनेंगी। आपको बड़े-बड़े कामों से धन मिलेगा। डाक्टर/कैमिस्ट के कामों से लाभ मिलेगा। सुख की नींद सोएंगी। नौकरी-व्यापार में शुभ फल मिलेगा। आपके ऊपर बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। आपके मकान में रौनक रहेगी। आप अंतिम समय में भी सुख से समय बिताएंगी। आध्यात्म और ध्यान मार्ग में सफलता मिलेगी। गुप्त विद्याओं में रुचि, विदेश संबंधी कामों से लाभ मिले या विदेश में निवास का योग है। आटा या चक्की के कामों से भी लाभ मिल सकता है।

यदि आपकी बिना आंगन के मकान में रिहाईश होगी, नीच या विधुर पुरुष से संबंध होंगे, अमानत में खरानत की, बिजली का सामान मुफ्त लिया तो आपका सूर्य मंदा हो सकता है या किसी कारण वश सूर्य मंदा हो गया हो तो सूर्य के मंदे असर से आप अधम, नेत्र रोगी, दिमागी खराबी, आग की तरह जलते रहने वाली होंगी। आंखों की रोशनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आप काली चीजों लकड़ी, बिजली के काम से संबंधित नौकरी-व्यापार में नुकसान उठाएंगी। आपको मैकेनिकल काम से भी नुकसान होगा। मकान बनवाने, लोहे, तेल, राशन, कच्चे कोयले के काम में भारी नुकसान होगा। नीच या विधुर पुरुष से आपका संबंध रहने से आपकी और बुजुर्गों की संपत्ति का नाश होगा।

यदि आपको लगता है कि आपको उपरोक्त कष्ट है तो निम्नलिखित परहेज और उपाय करें।

परहेज :

1. बिजली का सामान मुफ्त न लेवें।
2. किसी की अमानत में खरानत न करें।

उपाय :

1. भूरी चीटियों को त्रिचौली डालें।
2. पानी में चीनी डाल कर सूर्य को जल दें।

चन्द्र

आपकी जन्मकुंडली में चंद्रमा सातवें खाने में पड़ा है। इसकी वजह से आपको सुंदर पति का सुख प्राप्त होगा। आप नेता, वकील, व्यापारी बन सकती हैं। खेती की जमीन से भी लाभ मिलेगा। मध्यम पढ़ाई का योग है। आपके घर में जल तथा दूध की व्यवस्था हमेशा रहेगी। आप स्वयं लक्ष्मी अवतार होंगी। आपकी योगाभ्यास, शायरी और ज्योतिष विद्या में रुचि होगी। आप आस्तिक और ईश्वर भक्त होंगी। आप सरकारी सर्विस में होंगी तो प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगी। उत्तम वाहन सुख मिलेगा। दुनियादारी से मोहभंग हो जाएगा। आध्यात्म का फल श्रेष्ठ रहेगा। आप अपने पराक्रम से मिट्टी से सोने पैदा कर सकती हैं। धन-दौलत, जेवरात आदि की बरकत

होगी। आपको सरकार से या किसी संस्था द्वारा सम्मान मिलेगा या आप विदेश में अधिक समय व्यतीत करेंगी। विदेश की यात्रा करेंगी। ईश्वर की भक्ति प्राप्त होगी। आपको जल से संबंधित चीजों से लाभ होगा। आप नये विषयों की खोज भी करेंगी।

यदि आपने परपुरुष से अनैतिक संबंध रखे, भूत-प्रेत की सिद्धि की, मादक द्रव्यों का प्रयोग किया। माता/सास या पति से झगड़ा किया, 24-25 वर्ष आयु में विवाह हुआ तो आपका चंद्रमा मंदा हो सकता है या किसी कारण वश चंद्रमा मंदा हो गया हो तो चंद्रमा के मंदे असर से 2 वर्ष तक माता/सास का स्वास्थ्य ढीला रहेगा या माता/सास से अलग रहना पड़ सकता है। विवाह के बाद माता/सास के सुख में कमी आ सकती है। माता/सास का विरोध करना आपके लिए अशुभ होगा। आपको 24वें वर्ष में विवाह करना भावी संतान के लिए प्रतिकूल होगा। आपका चाल-चलन संदेहपूर्ण होगा। दूध और पानी को बेचने से संतान सुख में बाधा हो सकती है। आपके पति और आपकी माता का आपस में झगड़ा रहेगा, पति से संबंध विच्छेद या दूरी का भय रहेगा या हो सकता है। मादक चीजों-द्रव्यों के प्रयोग से आपकी बर्बादी होगी।

यदि आपको लगता है कि आपको उपरोक्त कष्ट है तो निम्नलिखित परहेज और उपाय करें।

परहेज :

1. चाल-चलन ठीक रखें।
2. दूध-पानी माल न बेचें।

उपाय :

1. दूध-पानी का दान करें।
2. विवाह के बाद पति के घर में जाने से पहले पति के घर में आपके वजन के बराबर चावल या दरिया का पानी कायम होना चाहिये।